

## September Exam Syllabus 2020

English Hornbill

- 1) The portrait of a lady
- 2) We're not afraid to die
- 3) A Photograph
- 4) The Laburnum Top

Snapshots

- 1) The Summer of a beautiful white horse
- 2) The address
- 3) Rangas marriage
- 4) Albert Einstein at school

Writing skills

- 1) Comprehension passage
- 2) Notice writing
- 3) Letter of placing order

Hindi काव्य खंड-पाठ १) कबीर के पद, पाठ 2) मीरा के पद, पाठ ४) वे आंखें, गद्य खंड- पाठ १) नमक का दरोगा, पाठ २) मियां नसीरुद्दीन, पाठ 5) गलता लोहा, वितान-पाठ १) भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, पाठ 2) राजस्थान की रजत बूंदें, अभिव्यक्ति और माध्यम-आलेख, फीचर लेखन, मुख्य टिप्पण, अनुस्मारक, कार्य सूची, लघु उत्तर आत्मक प्रश्न, निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश

Home Science Chapter no 1 to 6

Sociology 1. Chapter 1 - Sociology and society

2. Chapter 2 - Terms, concepts and their use in sociology
3. Chapter 3- Understanding social institutions
4. Chapter 4- Culture and specialisation

5. Project file (introduction, hypothesis, objectives, methodology, 20 questions related to topic- open and close ended questions.

History            Theme No 2,3 ,4 and 6

Political Science    Chapter 1,2,3,4 and 5 of book no 1

Psychology    Chapter 1,2 and 3

Fine Arts    Unit 1 and 2

Economics    Micro Economics

Introduction

Theory of consumer behaviour

Theory of demand

Production

Theory of supply

Statistics

Introduction

Collection of data

Organisation of data

Presentation of data

Mathematics    Chapter no. 1 to 9

Computer Science    **Unit II: Computational Thinking and Programming - 1**

Python basics , Python fundamentals , Data Handling , Features of Python , Conditional statements if elif else

Music Swar , Saptak ,Jati ,naad , sangeet , That

Laya , Taal

Biography-Tansen

Notation of Rag

Detail of Rag Bihag ,Rag Bhimplasi.

Taals:- Dadra , kehrva , Teen Tal

Legal Studies Unit 1 –Chapter 2 to 4

Unit 3 – Chapter 3

Physical Education UNIT-1 :- Changing Trends &

Career in physical

Education

UNIT-2 :- Olympic Value

Education

UNIT 3 :- Physical Fitness,

Wellness & Lifestyle

UNIT 5 :- Yoga